

All India Trade Test - 2024 for Craftsmen Training Scheme (CTS)
Trade Name: Wireman_Year 2
Year: 2nd Year

Exam Date :
Exam Time :

- Note:
1. Tick the correct option out of four alternatives provided
2. All questions carry equal marks (2 Marks each)
3. There is no negative marking

Sr. No.	Client Question ID	Question Body and Alternatives	Marks	Negative Marks
Trade Theory				
1	1	<p>How many earth continuity conductors should be provided from the machine to panel board and to the main earth electrode? मशीन से पैनल बोर्ड और मुख्य अर्थ इलेक्ट्रोड को कितने अर्थ कैंटीनुटी कंडक्टर प्रदान किए जाने चाहिए?</p> <p>A1 4 : 4</p> <p>A2 3 : 3</p> <p>A3 2 : 2</p> <p>A4 1 : 1</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
2	2	<p>Which size of GI conductor is used for Earthing to the motor from the main electrode? मुख्य इलेक्ट्रोड से मोटर के लिए अर्थिंग के लिए जीआई कंडक्टर के किस आकार का उपयोग किया जाता है?</p> <p>A1 14 SWG : 14 SWG</p> <p>A2 10 SWG : 10 SWG</p> <p>A3 8 SWG : 8 SWG</p> <p>A4 4 SWG : 4 SWG</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
3	3	<p>How many earth is to be provided for a AC 3 phase induction motor? एक AC 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कितने अर्थ प्रदान किये जाते हैं?</p> <p>A1 1 : 1</p> <p>A2 2 : 2</p> <p>A3 3 : 3</p> <p>A4 4 : 4</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
4	4	How the cable size is determined for industrial wiring?	2.0	0.00

		<p>औद्योगिक वायरिंग के लिए केबल आकार कैसे निर्धारित करेंगे?</p> <p>A1 : By considering the voltage of circuit सर्किट के वोल्टेज पर विचार करके</p> <p>A2 : By considering the load resistance भार प्रतिरोध पर विचार करके</p> <p>A3 : By considering the current carrying capacity केबल का करंट ले जाने की क्षमता पर विचार करके</p> <p>A4 : By considering the power factor पॉवर फेक्टर पर विचार करके</p>		
Trade Theory				
5	5	<p>Which is the permissible power load in a sub circuit as per IE rule? IE नियम के अनुसार उप सर्किट में पर्मिसिबल विद्युत भार कौन सा है?</p> <p>A1 : 800 Watts 800 Watts</p> <p>A2 : 1200 Watts 1200 Watts</p> <p>A3 : 2400 Watts 2400 Watts</p> <p>A4 : 3000 Watts 3000 Watts</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
6	6	<p>Which is the thickness of metal conduit pipe for conduit size up to 32 mm as per IE Rule? IE नियम के अनुसार 32 mm तक पाइप के लिए धातु कन्ड्यूट पाइप की मोटाई कौन सी है?</p> <p>A1 : 20 SWG 20 SWG</p> <p>A2 : 19 SWG 19 SWG</p> <p>A3 : 32 SWG 32 SWG</p> <p>A4 : 16 SWG 16 SWG</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
7	7	<p>Which helps both wireman and consumer to select the material according to commercial practice, cost and requirement? जो वायरमैन और उपभोक्ता दोनों को कामर्सिअल प्रक्टिस, लागत और आवश्यकता के अनुसार सामग्री का चयन करने में मदद करता है?</p> <p>A1 : Drawing ड्राइंग</p> <p>A2 : Specification of material सामग्री का स्पेसिफिकेशन</p> <p>A3 : Layout लेआउट</p> <p>A4 : Estimation एस्टीमेशन</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
8	8	<p>Which is the reason for using bus bar system in workshop for power distribution?</p>	2.0	0.00

		<p>बिजली वितरण के लिए कार्यशाला में बस बार प्रणाली का उपयोग करने का कारण क्या है?</p> <p>A1 : Occupy less space कम जगह घेरना</p> <p>A2 : Give neat appearance साफ-सुथरा दिखना</p> <p>A3 : Easy addition and alterations आसानी से जोड़ना और बदलना</p> <p>A4 : Withstand over load ओवर लोड का सामना करना</p>		
Trade Theory				
9	9	<p>How many two way switches are required in godown wiring circuit to control four lamps? चार लैम्प को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होती है?</p> <p>A1 : 5 5</p> <p>A2 : 4 4</p> <p>A3 : 3 3</p> <p>A4 : 2 2</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
10	10	<p>Which is the unit of luminous intensity? लुमिनस इन्टेन्सिटी की इकाई क्या है?</p> <p>A1 : Candela Candela</p> <p>A2 : Lumen Lumen</p> <p>A3 : Lumen/m² Lumen/m²</p> <p>A4 : Lumen/watt Lumen/watt</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
11	11	<p>Which is defined as that the luminous flux reaching a surface perpendicularly per unit area? लुमिनस फ्लक्स एक इकाई क्षेत्र के लंबवत सतह पर पहुंच रहा है इसे किसके द्वारा परिभाषित करेंगे?</p> <p>A1 : Luminous flux लुमिनस फ्लक्स</p> <p>A2 : Illuminance इलुमिनेंस</p> <p>A3 : Luminous intensity लुमिनस इन्टेन्सिटी</p> <p>A4 : Lux लेक्स</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
12	12	<p>Which is the property of good illumination? एक अच्छे इलुमिनेंस के गुण क्या है?</p>	2.0	0.00

- A1
: Should cover huge area
विशाल क्षेत्र को कवर करना चाइये
- A2
: Should have glaring light
स्पष्ट प्रकाश होना चाहिए
- A3
: Should be low consumption
कम खपत होना चाहिए
- A4
: Should not strain the eyes
आँखें तनाव नहीं करना चाहिए

Trade Theory

13	13	<p>Which metal is used a filament incandescent lamps? एक मे फिलामेंट किस धातु का प्रयोग किया जाता है?</p> <p>A1 : Nichrome निक्रोम</p> <p>A2 : Tungsten टंगस्टन</p> <p>A3 : Eureka यूरेका</p> <p>A4 : Silver चाँदी</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------

Trade Theory

14	14	<p>What is the name of cap marked as 'x' of incandescent lamp? इन्केंडसेंट लैंप के 'x' के रूप में चिह्नित केप का नाम क्या है?</p> <div data-bbox="453 1068 1008 1478" data-label="Image"> </div> <p>A1 : Edison screw cap एडीसन पेंच केप</p> <p>A2 : Small bayonet cap छोटे बायोनेट केप</p> <p>A3 : Bayonet cap बायोनेट केप</p> <p>A4 : Giant Edison screw cap गैट एडीसन स्क्रू केप</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

Trade Theory

15	15	<p>Which is coated in the tungsten filament of fluorescent tube lamp? फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप के टंगस्टन फिलामेंट में क्या लेपित होता है?</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

		<p>A1 Barium and strontium oxides : बेरियम और स्ट्रोंटियम आक्साइड</p> <p>A2 Mercury : मरकरी</p> <p>A3 Sodium : सोडियम</p> <p>A4 Phosphor : फोस्फर</p>		
Trade Theory				
16	16	<p>What is the expansion of CFL? CFL का विस्तार क्या है?</p> <p>A1 Compressed Filament Lamp : Compressed Filament Lamp</p> <p>A2 Cathode Filament Lamp : Cathode Filament Lamp</p> <p>A3 Common Fluorescent Lamp : Common Fluorescent Lamp</p> <p>A4 Compact Fluorescent Lamp : Compact Fluorescent Lamp</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
17	17	<p>How stroboscopic effect is prevented in industrial twin tube light fitting? औद्योगिक ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव को कैसे रोका जाता है?</p> <p>A1 By connecting a capacitor parallel to supply : सप्लाय के समानांतर एक संधारित्र को जोड़कर</p> <p>A2 By connecting a capacitor parallel to each tube : प्रत्येक ट्यूब के समानांतर एक संधारित्र को जोड़कर</p> <p>A3 By connecting a capacitor series with one tube : संधारित्र श्रृंखला को एक ट्यूब से जोड़कर</p> <p>A4 By connecting a capacitor a series with both tube light : एक संधारित्र को दोनों ट्यूब लाइट के साथ एक श्रृंखला जोड़कर</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
18	18	<p>Which type of fluorescent tube lamps are used for dimming and flashing circuits? किस प्रकार के फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप का उपयोग डिमिंग और फ्लैशिंग सर्किट के लिए किया जाता है?</p> <p>A1 Instant start fluorescent lamp : इंस्टैंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप</p> <p>A2 Rapid start fluorescent tube lamp : रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप</p> <p>A3 Fluorescent lamp single tube lamp : फ्लोरोसेंट लैंप सिंगल ट्यूब लैंप</p> <p>A4 Fluorescent lamp double tube lamp : फ्लोरोसेंट लैंप डबल ट्यूब लैंप</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
19	19	<p>Which position the MA type HPMV lamp is to be hung for lighting? प्रकाश व्यवस्था के लिए MA टाइप HPMV लैंप को किस स्थिति में लटका दिया जाए?</p>	2.0	0.00


- A1 Horizontally
: होरिज़ॉटली
- A2 Vertically
: वरटीकलीं
- A3 Inclined
: इनकिलाइंड
- A4 Any position
: किसी भी स्थिति में

Trade Theory

20 20

What is the name the part marked as 'x' in High Pressure sodium vapour lamp?
उच्च दबाव वाले सोडियम वेपर लैंप में 'x' के रूप में भाग का नाम क्या है?

2.0 0.00



- A1 Electrode
: इलेक्ट्रोड
- A2 ARC tube
: ARC ट्यूब
- A3 Base
: बेस
- A4 Sodium vapour
: सोडियम वेपर

Trade Theory

21 21

Which colour light sodium vapour lamp gives?
सोडियम वेपर लैंप कौनसे रंग का प्रकाश देता है?

2.0 0.00

- A1 Yellow
: पीला
- A2 White
: सफेद
- A3 Blue white
: नीला सफेद
- A4 Blue
: नीला


Trade Theory

22 22

Which part of sodium vapour lamp fitting provides the ignition voltage initially and acts as a choke for limiting the current subsequently?
सोडियम वाष्प लैम्प फिटिंग का कौन सा भाग प्रारंभ में इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और बाद में करंट को सीमित करने के लिए चोक का काम करता है?


2.0 0.00

- A1 Ignitor
:

		<p>इग्रीटर A2 Leak transformer : लीकेज ट्रांसफार्मर</p> <p>A3 Capacitor : संधारित्र</p> <p>A4 Thermal starter : थर्मल स्टार्टर</p>		
Trade Theory				
23	23	<p>Which is represented by the symbol? प्रतीक द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है?</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>A1 Photovoltaic cell : फोटोवोल्टिक सेल</p> <p>A2 LDR : LDR</p> <p>A3 NTC resistor : NTC प्रतिरोध</p> <p>A4 LED : LED</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
24	24	<p>Which lamp acts only as switch instead of giving light? कौन सा लैम्प प्रकाश देने के बजाय केवल स्विच का काम करता है?</p> <p>A1 LED : LED</p> <p>A2 Miniature lamp : मिनिएचर लैम्प</p> <p>A3 Flasher : फ्लशर</p> <p>A4 Carbon filament lamp : कार्बन फिलामेंट लैम्प</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
25	25	<p>Which element is used as semi conductor? कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है?</p> <p>A1 Silver : चांदी</p> <p>A2 Silicon : सिलिकॉन</p> <p>A3 Copper : </p>	2.0	0.00


		तांबा A4 Aluminium : अल्युमीनियम		
Trade Theory				
26	26	How the N type semi conductor is formed? N - प्रकार सेमी कंडक्टर कैसे बना है? A1 Germanium with aluminium : आर्सेनिक के साथ जर्मेनियम A2 Silicon with antimony : सिलिकॉन एन्टीमनी के साथ A3 Silicon with iridium : इरिडियम सिलिकॉन के साथ A4 Silicon with boron : बोरान के साथ सिलिकॉन	2.0	0.00
Trade Theory				
27	27	Which element is used as impurity to provide 'N' type semi conductor? कौन सा तत्व 'N' प्रकार सेमी कंडक्टर प्रदान करने के लिए एम्प्यूरिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? A1 Arsenic : आर्सेनिक A2 Aluminium : अल्युमीनियम A3 Gallium : गेलियम A4 Boron : बोरान	2.0	0.00
Trade Theory				
28	28	How the P - type semiconductor is formed? P - प्रकार अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं? A1 Germanium with phosphorus : फास्फोरस के साथ जर्मेनियम A2 Silicon with aluminium : इंडियम के साथ सिलिकॉन A3 Germanium with antimony : एन्टीमनी के साथ जर्मेनियम A4 Germanium with aluminium : इंडियम के साथ जर्मेनियम	2.0	0.00
Trade Theory				
29	29	What does the depletion region behave? दिप्लेक्सन रिजन कैसा व्यवहार करता है? A1 Conductor : कंडक्टर A2 Insulator : इन्सुलेटर A3 Semi conductor	2.0	0.00

		<p>सेमी कन्डक्टर</p> <p>A4 Resistor</p> <p>: रेसिस्टर</p>		
Trade Theory				
30	30	<p>What does letter '2N' indicate in the semiconductor device?</p> <p>2N' अर्धचालक युक्ति में क्या दर्शाता है?</p> <p>A1 The diode PN junctions</p> <p>: PN जंक्शन डायोड</p> <p>A2 The number of terminals</p> <p>: टर्मिनलों की संख्या</p> <p>A3 The device power</p> <p>: डिवाइस पावर</p> <p>A4 Two junction device</p> <p>: दो जंक्शन डिवाइस</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
31	31	<p>What is the use of LED?</p> <p>LED के उपयोग क्या है?</p> <p>A1 To rectify AC to DC</p> <p>: एसी कॉ डीसी में बदलने</p> <p>A2 To reduce the ripple</p> <p>: रिपल को कम करने के लिये</p> <p>A3 To regulate the voltage</p> <p>: वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए</p> <p>A4 To indicate light</p> <p>: प्रकाश को दर्शाने के लिए</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
32	32	<p>What is the PIV of the diode if the AC input voltage is 24V?</p> <p>यदि AC इनपुट वोल्टेज 24V है तो डायोड की PIV क्या है?</p> <p>A1 32 V</p> <p>: 32 V</p> <p>A2 33 V</p> <p>: 33 V</p> <p>A3 34 V</p> <p>: 34 V</p> <p>A4 36 V</p> <p>: 36 V</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
33	33	<p>What is the expansion of PIV?</p> <p>PIV के विस्तार क्या है?</p> <p>A1 Peak Input Voltage</p> <p>: Peak Input Voltage</p> <p>A2 Positive Inverse Voltage</p> <p>: Positive Inverse Voltage</p> <p>A3 Peak Inverse Voltage</p> <p>: Peak Inverse Voltage</p>	2.0	0.00

		Peak Inverse Voltage A4 Phase Inverse Voltage : Phase Inverse Voltage		
Trade Theory				
34	34	<p>What is the relation between input AC voltage (V_{AC}) and output DC voltage (V_{DC}) in full wave rectifier? फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट एसी वोल्टेज (V_{AC}) और आउटपुट डीसी वोल्टेज (V_{DC}) के बीच संबंध क्या है?</p> <p>A1 $V_{dc} = 0.45 V_{ac}$: $V_{dc} = 0.45 V_{ac}$</p> <p>A2 $V_{dc} = 0.637 V_{ac}$: $V_{dc} = 0.637 V_{ac}$</p> <p>A3 $V_{dc} = 0.707 V_{ac}$: $V_{dc} = 0.707 V_{ac}$</p> <p>A4 $V_{dc} = 0.9 V_{ac}$: $V_{dc} = 0.9 V_{ac}$</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
35	35	<p>What type of filter is illustrated? किस प्रकार का फ़िल्टर सचित्र है?</p>  <p>A1 PI filter : PI फिल्टर</p> <p>A2 Series Inductor filter : सीरीज इन्डक्टर फिल्टर</p> <p>A3 RC filter : RC फिल्टर</p> <p>A4 Choke input LC filter : चोक इनपुट LC फिल्टर</p>	2.0	0.00
Trade Theory				
36	36	<p>What is the name of maximum reverse voltage the diode can with stand? डायोड की विथ स्टैंड पर अधिकतम रिवर्स वोल्टेज का क्या नाम है?</p> <p>A1 Knee voltage : नी वोल्टेज</p> <p>A2 Barrier voltage : बैरियर वोल्टेज</p> <p>A3 Peak inverse voltage : पीक इनवर्स वोल्टेज</p> <p>A4 Cut in voltage : कट इन वोल्टेज</p>	2.0	0.00
Trade Theory				

37	37	<p>What is the barrier potential for silicon diode? सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेन्शियल क्या है?</p> <p>A1 : 0.9V 0.9V</p> <p>A2 : 0.3V 0.3V</p> <p>A3 : 0.7V 0.7V</p> <p>A4 : 0.6V 0.6V</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

Trade Theory

38	38	<p>Identify the component symbol represents. घटक किस प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है पहचानें?</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>A1 Diode : डायोड</p> <p>A2 Diac : डाइक</p> <p>A3 LED : LED</p> <p>A4 Zener diode : ज़ेनर डायोड</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

Workshop Calculation Science

39	39	<p>What is the formula for $(a-b)^2$? $(a-b)^2$ का सूत्र क्या है?</p> <p>A1 : $a^2 - 2ab + b^2$ $a^2 - 2ab + b^2$</p> <p>A2 : $a^2 + 2ab + b^2$ $a^2 + 2ab + b^2$</p> <p>A3 : $a^2 - 2ab - b^2$ $a^2 - 2ab - b^2$</p> <p>A4 : $-a^2 - 2ab - b^2$ $-a^2 - 2ab - b^2$</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

Workshop Calculation Science


40	40	<p>What is the value of $a \times a^2 \times a^3 \times a^4$? $a \times a^2 \times a^3 \times a^4$ का मान क्या है?</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------

A1 a^7
:
 a^7
A2 a^8
:
 a^8
A3 a^9
:
 a^9
A4 a^{10}
:
 a^{10}

Workshop Calculation Science

41	41	<p>What is the value of 625^0? 625⁰ का मान क्या है?</p> <p>A1 0 : 0 A2 1 : 1 A3 525 : 525 A4 25 : 25</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------

Workshop Calculation Science

42	42	<p>Which type of stress? कौन-सा प्रतिबल है?</p>  <p>A1 Tensile stress : तनाव प्रतिबल A2 Compressive stress : सम्पीडन प्रतिबल A3 Shear stress : कर्तन प्रतिबल A4 Torsional stress : टॉर्सनल प्रतिबल</p>	2.0	0.00
----	----	---	-----	------

Workshop Calculation Science

43	43	<p>What is the unit of strain? विकृति की इकाई क्या है?</p> <p>A1 Kg/cm^2 : Kg/cm^2 A2 Newton/metre^2 : Newton/metre^2 A3 Metre : Metre</p>	2.0	0.00
----	----	--	-----	------

A4
: No unit
No unit

Workshop Calculation Science

44 44

Which symbol is used to express change in length?
लम्बाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है?

2.0 0.00

A1 L

: L

A2 δl

: δl

A3 I

: I

A4 e


: e

Engineering Drawing

45 45

Identify the wave form.
वेव फार्म को पहचानें

2.0 0.00



A1 Square wave

: स्केर वेव

A2 Sine wave

: साइन वेव

A3 Triangle wave

: त्रिकोण वेव

A4 Saw-tooth wave


: सॉ-टूथ वेव

Engineering Drawing

46 46

What is the name of the symbol?
प्रतीक का नाम क्या है?

2.0 0.00



A1 Microphone

: माइक्रोफोन

A2 Dynamic microphone

: डायनामिक माइक्रोफोन

A3
: Condenser microphone

कंडेंसर माइक्रोफोन

A4
: Loud speaker

लाउड स्पीकर

Engineering Drawing

47

47

Identify the given symbol

दिए गए प्रतीक को पहचानें



A1
: AC

AC

A2
: DC

DC

A3
: Ohms

ओम

A4
: Inductance

इनमें से कोई भी नहीं


Engineering Drawing

48

48

What is the name of the gate

गेट का नाम क्या है?



A1
: NOT Gate

NOT गेट

A2
: Ex-NOR Gate

Ex-Nor गेट

A3
: OR Gate

OR गेट

A4
: AND Gate

AND गेट

Engineering Drawing


49

49


Which is photo diode?

फोटो डायोड कौन सा है?


A1
:




A2
:



A3
:



A4
:



Engineering Drawing

50 50


Which of the following is AC ammeter?
निम्नलिखित में से कौन AC एमीटर है?

2.0 0.00


A1
:



A2
:



A3
:



A4
:



Employability Skills

51 51

Complete the sentence with suitable describing words It is a _____ neighbourhood. One need not fear.
Complete the sentence with suitable describing words It is a _____ neighbourhood. One need not fear.

2.0 0.00

		<p>A1 good : good</p> <p>A2 big : big</p> <p>A3 safe : safe</p> <p>A4 expensive : expensive</p>		
Employability Skills				
52	52	<p>Complete the sentence with suitable describing words There isn't any amusement park in the area. It is a ___ place. Complete the sentence with suitable describing words There isn't any amusement park in the area. It is a ___ place.</p> <p>A1 polluted : polluted</p> <p>A2 dry : dry</p> <p>A3 noisy : noisy</p> <p>A4 boring : boring</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
53	53	<p>Complete the sentence with suitable describing words There is a factory in the area. The air is _____. Complete the sentence with suitable describing words There is a factory in the area. The air is _____.</p> <p>A1 polluted : polluted</p> <p>A2 boring : boring</p> <p>A3 uneven : uneven</p> <p>A4 noisy : noisy</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
54	54	<p>Complete the sentence with suitable describing words There is water scarcity in the locality. The area is _____. Complete the sentence with suitable describing words There is water scarcity in the locality. The area is _____.</p> <p>A1 uneven : uneven</p> <p>A2 noisy : noisy</p> <p>A3 dry : dry</p> <p>A4 boring : boring</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
55	55	<p>Complete the sentence with suitable describing words The transportation to some rural areas is difficult as the roads are _____ Complete the sentence with suitable describing words The transportation to some rural areas is difficult as the roads are _____</p>	2.0	0.00

		<p>A1 dry : dry</p> <p>A2 polluted : polluted</p> <p>A3 boring : boring</p> <p>A4 uneven : uneven</p>		
Employability Skills				
56	56	<p>What help us to maintain the balance between mental and physical activities? What help us to maintain the balance between mental and physical activities?</p> <p>A1 Hobbies : Hobbies</p> <p>A2 Running : Running</p> <p>A3 Walking : Walking</p> <p>A4 Reading : Reading</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
57	57	<p>When you meet the instructor inside or outside the ITI, it is.... When you meet the instructor inside or outside the ITI, it is....</p> <p>A1 always formal : always formal</p> <p>A2 . formal inside the ITI : . formal inside the ITI</p> <p>A3 informal the ITI : informal the ITI</p> <p>A4 informal outside : informal outside</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
58	58	<p>Role models _____ people to follow them Role models _____ people to follow them</p> <p>A1 elevate : elevate</p> <p>A2 instruct : instruct</p> <p>A3 inspire : inspire</p> <p>A4 motivate : motivate</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
59	59	<p>Spoken communication is usually not only _____ but also _____ Spoken communication is usually not only _____ but also _____</p> <p>A1 formal, informal : formal, informal</p>	2.0	0.00

		<p>formal, informal</p> <p>A2 verbal, nonverbal : verbal, nonverbal</p> <p>A3 verbal, informal : verbal, informal</p> <p>A4 formal, nonverbal : formal, nonverbal</p>		
Employability Skills				
60	60	<p>The immediate surroundings to the place you live in is called _____</p> <p>The immediate surroundings to the place you live in is called _____</p> <p>A1 village : village</p> <p>A2 town : town</p> <p>A3 city : city</p> <p>A4 neighbourhood : neighbourhood</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
61	61	<p>The conditions in a place that affect the behaviour and development of somebody or something is called _____</p> <p>The conditions in a place that affect the behaviour and development of somebody or something is called _____</p> <p>A1 neighbourhood : neighbourhood</p> <p>A2 environment : environment</p> <p>A3 locality : locality</p> <p>A4 facilities : facilities</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
62	62	<p>Which kind of persons are with very good behaviour, achievements and lead as an example?</p> <p>Which kind of persons are with very good behaviour, achievements and lead as an example?</p> <p>A1 customer service executives : customer service executives</p> <p>A2 ITI instructors : ITI instructors</p> <p>A3 role models : role models</p> <p>A4 sales supervisors : sales supervisors</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
63	63	<p>There ----- a coffee shop -----the park.</p> <p>There ----- a coffee shop -----the park.</p> <p>A1 are, next to : are, next to</p>	2.0	0.00

		<p>A2 is, next to : is, next to</p> <p>A3 is, next : is, next</p> <p>A4 are, next : are, next</p>		
Employability Skills				
64	64	<p>Rainwater harvesting ----- to prevent water scarcity Rainwater harvesting ----- to prevent water scarcity</p> <p>A1 gives : gives</p> <p>A2 gave : gave</p> <p>A3 help : help</p> <p>A4 helps : helps</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
65	65	<p>Identify the opposites. clean x -----, healthy x ----- Identify the opposites. clean x -----, healthy x -----</p> <p>A1 dirty, health : dirty, health</p> <p>A2 . dirty, healthy : . dirty, healthy</p> <p>A3 dirt, unhealthy : dirt, unhealthy</p> <p>A4 dirty, unhealthy : dirty, unhealthy</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
66	66	<p>Which one is not an adventure? Which one is not an adventure?</p> <p>A1 climbing mountains : climbing mountains</p> <p>A2 trekking : trekking</p> <p>A3 surfing : surfing</p> <p>A4 driving : driving</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
67	67	<p>Travelling in the sea is called a ____ Travelling in the sea is called a ____</p> <p>A1 voyage : voyage</p> <p>A2 boating : boating</p>	2.0	0.00

		boating A3 fishing : fishing A4 tour : tour		
Employability Skills				
68	68	There are many dos and don'ts to be -----while preparing for/ attending an _____ There are many dos and don'ts to be -----while preparing for/ attending an _____ A1 there, interview : there, interview A2 identify, : identify, A3 identified, interviewed : identified, interviewed A4 identified, interview : identified, interview	2.0	0.00
Employability Skills				
69	69	Always ----- your mobile phone ----- silent mode. Always ----- your mobile phone ----- silent mode. A1 know, in : know, in A2 know, of : know, of A3 keep, in : keep, in A4 keep, of : keep, of	2.0	0.00
Employability Skills				
70	70	The Everest, the ----- peak in the world, ----- in Tibet. The Everest, the ----- peak in the world, ----- in Tibet. A1 high, is : high, is A2 higher, is : higher, is A3 highest, are : highest, are A4 highest, is : highest, is	2.0	0.00
Employability Skills				
71	71	Which language is essential to become a Computer professional? Which language is essential to become a Computer professional? A1 Mother tongue : Mother tongue A2 Chinese : Chinese	2.0	0.00

		<p>A3 English : English</p> <p>A4 Hindi : Hindi</p>		
Employability Skills				
72	72	<p>Which is the Synonym for "loyal"?</p> <p>Which is the Synonym for "loyal"?</p> <p>A1 Faithful : Faithful</p> <p>A2 Prosperous : Prosperous</p> <p>A3 Utopian : Utopian</p> <p>A4 Perfect : Perfect</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
73	73	<p>When you speak to your supervisor, you should be _____.</p> <p>When you speak to your supervisor, you should be _____.</p> <p>A1 Aggressive : Aggressive</p> <p>A2 Formal : Formal</p> <p>A3 Informal : Informal</p> <p>A4 Casual : Casual</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
74	74	<p>Which one is the describing word from among the words given?</p> <p>Which one is the describing word from among the words given?</p> <p>A1 Mobile phone : Mobile phone</p> <p>A2 Water : Water</p> <p>A3 Pull : Pull</p> <p>A4 Magnificent : Magnificent</p>	2.0	0.00
Employability Skills				
75	75	<p>A _____ sentence is a sentence that expresses a direct , command, invitations, warning or instruction.</p> <p>A _____ sentence is a sentence that expresses a direct , command, invitations, warning or instruction.</p> <p>A1 simple : simple</p> <p>A2 compound : compound</p> <p>A3 imperative : imperative</p>	2.0	0.00

imperative
A4 adjective
:
adjective

SAMPLE QUESTION PAPER SET 2



Wireman - 2nd year (Eng) SET 2

Question Number	Correct Alternative position
1	A3
2	A3
3	A2
4	A3
5	A4
6	A4
7	A2
8	A3
9	A3
10	A1
11	A2
12	A4
13	A2
14	A3
15	A1
16	A4
17	A3
18	A2
19	A2
20	A2
21	A1
22	A2
23	A4
24	A3
25	A2
26	A2
27	A1
28	A2
29	A2
30	A4
31	A4
32	A3
33	A3
34	A4
35	A2
36	A3
37	A3
38	A4
39	A1
40	A4
41	A2
42	A3
43	A4
44	A2
45	A2

46	A3
47	A1
48	A4
49	A3
50	A1
51	A3
52	A4
53	A1
54	A3
55	A4
56	A1
57	A1
58	A3
59	A2
60	A4
61	A2
62	A3
63	A2
64	A4
65	A4
66	A4
67	A1
68	A4
69	A3
70	A4
71	A3
72	A1
73	A2
74	A4
75	A3

KEY ANSWER SET 2